



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042025-262574  
CG-DL-E-21042025-262574

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947

No. 194]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 233(अ).—तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 24) की धारा 13क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित अधिकारियों को शास्तियों का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में क्रमशः स्तंभ (4) और स्तंभ (6) में उल्लिखित कार्य स्थानों पर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित तटीय जिलों के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं.	जिले का नाम	न्यायनिर्णायक अधिकारी	कार्य स्थान	अपील प्राधिकारी	कार्य स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					
1.	उत्तर और मध्य अंडमान	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	श्री विजयपुरम	निदेशक, मात्स्यिकी	श्री विजयपुरम

2.	दक्षिण अंडमान	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	मायाबंदर	निदेशक, मात्स्यिकी	मायाबंदर
3.	निकोबार	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	कार निकोबार	निदेशक, मात्स्यिकी	कार निकोबार
<b>आंध्र प्रदेश</b>					
4.	श्रीकाकुलम	उप निदेशक, मात्स्यिकी	श्रीकाकुलम	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	विशाखापट्टनम
5.	विजयनगरम				
6.	विशाखापट्टनम	उप निदेशक, मात्स्यिकी	अनकापल्ली		
7.	अनकापल्ली				
8.	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर कोनासीमा	उप निदेशक, मात्स्यिकी	काकीनाडा	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	अमलापुरम , डॉ. बी.आर.अम्बेडकर कोनासीमा जिला
9.	काकीनाडा				
10.	एलुरु	उप निदेशक, मात्स्यिकी	एलुरु	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	भीमावरम , पश्चिम गोदावरी जिला
11.	पश्चिमी गोदावरी	उप निदेशक, मात्स्यिकी	भीमावरम		
12.	कृष्णा	उप निदेशक, मात्स्यिकी	गुडीवाडा	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	मच्छलीपट्टनम , कृष्णा जिला
13.	बापतला	उप निदेशक, मात्स्यिकी	बापतला	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	नेल्लोर, एसपीएसआर नेल्लोर जिला
14.	प्रकाशम				
15.	एसपीएसआर नेल्लोर	उप निदेशक, मात्स्यिकी	तिरुपति		
16.	तिरुपति				
<b>दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव</b>					
17.	दमन	निदेशक-सह- संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)	दमन	सचिव (मात्स्यिकी)	दमन
18.	दीव	डिप्टी कलेक्टर/मुख्यालय मात्स्यिकी	दीव		
<b>गोवा</b>					
19.	उत्तर गोवा	उप निदेशक, मात्स्यिकी	मुख्यालय, पणजी	निदेशक, मात्स्यिकी	मुख्यालय, पणजी
20.	दक्षिण गोवा	उप निदेशक, मात्स्यिकी	प्रधान कार्यालय, पणजी	निदेशक, मात्स्यिकी	मुख्यालय, पणजी
<b>गुजरात</b>					
21.	पोरबंदर	उप निदेशक, मात्स्यिकी	वेरावल		गांधीनगर
22.	गीर सोमनाथ				

23.	देवभूमि द्वारका (ओखा)			निदेशक, मात्स्यकी	
24.	जूनागढ़ (मंगरोल)				
25.	जामनगर				
26.	अमरेली (जाफराबाद)				
27.	भावनगर	उप निदेशक, मात्स्यकी	राजकोट		
28.	मोरबी				
29.	भुज				
30.	आनंद	उप निदेशक, मात्स्यकी	वडोदरा		
31.	भरूच				
32.	सूरत	उप निदेशक, मात्स्यकी	सूरत		
33.	नवसारी				
34.	वल्साड				
<b>कर्नाटक</b>					
35.	मंगलौर	उप निदेशक, मात्स्यकी	मंगलौर	अपर निदेशक, मात्स्यकी (समुद्री)	निदेशालय, बंगलुरु
36.	उडुपी	उप निदेशक, मात्स्यकी	उडुपी		
37.	कारवार	उप निदेशक, मात्स्यकी	कारवार		

<b>केरल</b>					
38.	तिरुवनंतपुरम	उप निदेशक, मात्स्यकी	तिरुवनंतपुरम	अपर निदेशक, मात्स्यकी	तिरुवनंतपुरम
39.	कोल्लम	उप निदेशक, मात्स्यकी	कोल्लम		
40.	अलपुझा	उप निदेशक, मात्स्यकी	अलपुझा		
41.	एर्नाकुलम	उप निदेशक, मात्स्यकी	एर्नाकुलम		
42.	त्रिशूर	उप निदेशक, मात्स्यकी	त्रिशूर		
43.	मलप्पुरम	उप निदेशक, मात्स्यकी	मलप्पुरम		
44.	कोझिकोड	उप निदेशक, मात्स्यकी	कोझिकोड		

45.	कन्नूर	उप निदेशक, मात्स्यिकी	कन्नूर		
46.	कासरगोड	उप निदेशक, मात्स्यिकी	कासरगोड		
<b>लक्षद्वीप</b>					
47.	लक्षद्वीप	निदेशक, मात्स्यिकी	कावारत्ती	सचिव (मात्स्यिकी)	कावारत्ती
<b>महाराष्ट्र</b>					
48.	ठाणे	क्षेत्रीय उपायुक्त, मात्स्यिकी	मुंबई	संयुक्त निदेशक (मात्स्यिकी)	मुंबई
49.	पालघर				
50.	रत्नगिरि				
51.	रायगढ़				
52.	सिंधुदुर्ग				
<b>ओडिशा</b>					
53.	बालासोर	उप निदेशक, मात्स्यिकी (खारा जल)	मात्स्यिकी निदेशालय (ओडिशा), कटक	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी (तटीय)	मात्स्यिकी निदेशालय (ओडिशा), कटक
54.	भद्रक				
55.	केंद्रपाड़ा				
56.	जगतसिंहपुर				
57.	पुरी				
58.	गंजम				
<b>पुदुच्चेरी</b>					
59.	पुदुच्चेरी	निदेशक, मात्स्यिकी	पुदुच्चेरी	सचिव (मात्स्यिकी)	पुदुच्चेरी

<b>तमिलनाडु</b>					
60.	तिरुवल्लूर	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी एवं मछुआरा कल्याण (क्षेत्रीय), चेन्नई	अपर निदेशक, मात्स्यिकी (अंतर्देशीय)	मात्स्यिकी और मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार, नंदनम , चेन्नई
61.	चेंगलपट्टूर				
62.	विल्लुपुरम	उप निदेशक, मात्स्यिकी	उप निदेशक, मात्स्यिकी एवं मछुआरा कल्याण (क्षेत्रीय), कुड्डालोर		
63.	कुड्डालोर				
64.	नागपट्टिनम	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी एवं मछुआरा कल्याण (क्षेत्रीय) कार्यालय, नागपट्टिनम		
65.	मयिलादुथुराई				
66.	तंजावुर				
67.	थिरुवरुर				
68.	पुदुकोट्टुई	उप निदेशक,	उप निदेशक,		

		मात्स्यिकी	मात्स्यिकी एवं मछुआरा कल्याण (क्षेत्रीय), त्रिची		
69.	रामनाथपुरम	उप निदेशक, मात्स्यिकी	उप निदेशक, मात्स्यिकी एवं मछुआरा कल्याण (क्षेत्रीय), रामनाथपुरम		
70.	थूथुकुडी	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी	कार्यालय जेडीएफ एंड एफडब्ल्यू (क्षेत्रीय), थूथुकुडी		
71.	तिरुनेलवेली				
72.	कन्याकुमारी	मत्स्य पालन उप निदेशक	संयुक्त निदेशक, मात्स्यिकी एवं मछुआरा कल्याण (क्षेत्रीय), कन्याकुमारी		
<b>पश्चिम बंगाल</b>					
73.	पूर्वी मिदनापुर	अपर निदेशक-मात्स्यिकी तकनीकी (मुख्यालय)	मात्स्यिकी निदेशालय, कोलकाता	निदेशक, मात्स्यिकी	मात्स्यिकी निदेशालय, कोलकाता
74.	दक्षिण 24 परगना				
75.	उत्तर 24 परगना				

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. j-21001/32/2024-Fy (E-24725)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

**(Department of Fisheries)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2025

**G.S.R. 233(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 13A of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (Act No. 24 of 2005), the Central Government hereby notifies the officers mentioned in column (3) of the Table below as the Adjudicating Officers to adjudicate the penalties and the officer mentioned in column (5) of the said Table as the Appellate Authority to hear appeal against the order passed by the Adjudicating Officer for the coastal districts mentioned in column (2) of the said table in the States and Union territories at the working stations mentioned in the column (4) and (6) respectively, namely:-

**Table**

Serial number	Name of district	Adjudicating Officer	Working station	Appellate Authority	Working station
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS</b>					
1.	North and Middle Andaman	Joint Director of	Sri Vijiya Puram	Director of Fisheries	Sri Vijiya Puram

		Fisheries			
2.	South Andaman	Joint Director of Fisheries	Mayabunder	Director of Fisheries	Mayabunder
3.	Nicobar	Joint Director of Fisheries	Car Nicobar	Director of Fisheries	Car Nicobar
<b>ANDHRA PRADESH</b>					
4.	Srikakulam	Dy Director of Fisheries	Srikakulam	Joint Director of Fisheries	Visakhapatnam
5.	Vizianagaram				
6.	Visakhapatnam	Dy. Director of Fisheries	Anakapalli	Joint Director of Fisheries	Amalapuram, Dr. B.R.Ambedkar Konaseema District
7.	Anakapalli				
8.	Dr.B.R.Ambedkar Konaseema	Dy. Director of Fisheries	Kakinada	Joint Director of Fisheries	Amalapuram, Dr. B.R.Ambedkar Konaseema District
9.	Kakinada				
10.	Eluru	Dy. Director of Fisheries	Eluru	Joint Director of Fisheries	Bhimavaram, West Godavari District
11.	West Godavari	Dy. Director of Fisheries	Bhimavaram		
12.	Krishna	Dy. Director of Fisheries	Gudiwada	Joint Director of Fisheries	Machilipatnam, Krishna District
13.	Bapatla	Dy. Director of Fisheries	Bapatla	Joint Director of Fisheries	Nellore, SPSR Nellore District
14.	Prakasam				
15.	SPSR Nellore	Dy. Director of Fisheries	Thirupati	Joint Director of Fisheries	Nellore, SPSR Nellore District
16.	Tirupati				
<b>DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU</b>					
17.	Daman	Director-cum- Joint Secretary (Fisheries)	Daman	Secretary (Fisheries)	Daman
18.	Diu	Deputy Collector/ H.O. Fisheries	Diu		
<b>GOA</b>					
19.	North Goa	Deputy Director Fisheries	Head Office, Panaji	Director of Fisheries	Head Office, Panaji
20.	South Goa	Deputy Director Fisheries	Head Office, Panaji	Director of Fisheries	Head Office, Panaji
<b>GUJARAT</b>					
21.	Porbandar	Deputy Director of	Veraval		Gandhinagar
22.	Gir Somnath				

23.	Devbhumi Dwarka (Okha)	Fisheries		Director of Fisheries	
24.	Junagadh (Mangrol)				
25.	Jamnagar				
26.	Amreli (Jafrabad)				
27.	Bhavnagar	Deputy Director of Fisheries	Rajkot		
28.	Morbi				
29.	Bhuj				
30.	Anand	Deputy Director of Fisheries	Vadodara		
31.	Bharuch				
32.	Surat	Deputy Director of Fisheries	Surat		
33.	Navsari				
34.	Valsad				
<b>KARNATAKA</b>					
35.	Mangalore	Deputy Director of Fisheries	Mangalore	Additional Director of Fisheries (Marine)	Directorate, Bangalore
36.	Udupi	Deputy Director of Fisheries	Udupi		
37.	Karwar	Deputy Director of Fisheries	Karwar		
<b>KERALA</b>					
38.	Thiruvananthapuram	Deputy Director of Fisheries	Thiruvananthapuram	Additional Director of Fisheries	Thiruvananthapuram
39.	Kollam	Deputy Director of Fisheries	Kollam		
40.	Alappuzha	Deputy Director of Fisheries	Alappuzha		
41.	Ernakulam	Deputy Director of Fisheries	Ernakulam		
42.	Thrissur	Deputy Director of Fisheries	Thrissur		
43.	Malappuram	Deputy Director of Fisheries	Malappuram		
44.	Kozhikode	Deputy Director of Fisheries	Kozhikode		

45.	Kannur	Deputy Director of Fisheries	Kannur		
46.	Kasargode	Deputy Director of Fisheries	Kasargode		
<b>LAKSHADWEEP</b>					
47.	Lakshadweep	Director of Fisheries	Kavaratti	Secretary (Fisheries)	Kavaratti
<b>MAHARASHTRA</b>					
48.	Thane	Regional Deputy Commissioner of Fisheries	Mumbai	Joint Commissioner of Fisheries (BW)	Mumbai
49.	Palghar				
50.	Ratnagiri				
51.	Raigad				
52.	Sindhudurg				
<b>ODISHA</b>					
53.	Balasore	Deputy Director of Fisheries (Brackish water)	Directorate of Fisheries (Odisha), Cuttack	Joint Director of Fisheries (Coastal)	Directorate of Fisheries (Odisha), Cuttack
54.	Bhadrak				
55.	Kendrapara				
56.	Jagatsinghpur				
57.	Puri				
58.	Ganjam				
<b>PUDUCHERRY</b>					
59.	Puducherry	Director of Fisheries	Puducherry	Secretary (Fisheries)	Puducherry
<b>TAMIL NADU</b>					
60.	Tiruvallur	Joint Director of Fisheries	O/o JDF&FW (Regional), Chennai	Additional Director of Fisheries (Inland)	O/o The Department of Fisheries and Fisherman Welfare, Government of Tamil Nadu, Nandadam, Chennai
61.	Chengalpattu				
62.	Villupuram	Deputy Director of Fisheries	O/o DDF&FW, (Regional), Cuddalore		
63.	Cuddalore				
64.	Nagapattinam	Joint Director of Fisheries	O/o JDF&FW (Regional), Nagapattinam		
65.	Mayiladuthurai				
66.	Thanjavur				
67.	Thiruvarur				
68.	Pudukottai	Deputy Director of Fisheries	O/o DDF&FW (Regional), Trichy		
69.	Ramanathapuram	Deputy Director of Fisheries	O/o DDF&FW (Regional), Ramanathapuram		
70.	Thoothukudi	Joint Director of Fisheries	O/o JDF&FW (Regional), Thoothukudi		
71.	Tirunelveli				



72.	Kanniyakumari	Deputy Director of Fisheries	O/o DDF&FW (Regional), Kanniyakumari		
<b>WEST BENGAL</b>					
73.	East Midnapore	Additional Director of Fisheries- Technical (HQ)	Directorate of Fisheries, Kolkata	Director of Fisheries	Directorate of Fisheries, Kolkata
74.	South 24 Parganas				
75.	North 24 Parganas				

This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. j-21001/32/2024-Fy (E-24725)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt Secy.